



Mr.



Ms.

Model: Horoscope-Matching

Order No: 121945401


पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
15/04/2026 :	जन्म तिथि	: 15/04/2026
बुधवार :	दिन	: बुधवार
घंटे 20:29:00 :	जन्म समय	: 20:29:00 घंटे
घटी 36:22:07 :	जन्म समय(घटी)	: 36:22:07 घटी
India :	देश	: India
Delhi :	स्थान	: Delhi
28:39:00 उत्तर :	अक्षांश	: 28:39:00 उत्तर
77:13:00 पूर्व :	रेखांश	: 77:13:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:21:08 :	स्थानिक संस्कार	: -00:21:08 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
05:56:09 :	सूर्योदय	: 05:56:09
18:46:46 :	सूर्यास्त	: 18:46:46
24:13:33 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 24:13:33
तुला :	लग्न	: तुला
शुक्र :	लग्न लग्नाधिपति	: शुक्र
मीन :	राशि	: मीन
गुरु :	राशि-स्वामी	: गुरु
उ०भाद्रपद :	नक्षत्र	: उ०भाद्रपद
शनि :	नक्षत्र स्वामी	: शनि
1 :	चरण	: 1
ऐन्द्र :	योग	: ऐन्द्र
वणिज :	करण	: वणिज
दू-दूधेश्वर :	जन्म नामाक्षर	: दू-दूती
मेष :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: मेष
विप्र :	वर्ण	: विप्र
जलचर :	वश्य	: जलचर
गौ :	योनि	: गौ
मनुष्य :	गण	: मनुष्य
मध्य :	नाड़ी	: मध्य
सर्प :	वर्ग	: सर्प

## ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी शनि 14वर्ष 9मा 0दि शनि	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी शनि 14वर्ष 9मा 0दि शनि
15/04/2026	24:10:59	तुला	लग्न	तुला	24:10:59	15/04/2026
15/01/2041	01:25:36	मेष	सूर्य	मेष	01:25:36	15/01/2041
15/04/2026	06:18:51	मीन	चंद्र	मीन	06:18:51	15/04/2026
15/01/2041	10:17:21	मीन	मंगल	मीन	10:17:21	15/01/2041
15/04/2026	06:27:33	मीन	बुध	मीन	06:27:33	15/04/2026
28/09/2027	22:48:11	मिथु	गुरु	मिथु	22:48:11	28/09/2027
06/11/2028	25:21:20	मेष	शुक्र	मेष	25:21:20	06/11/2028
06/01/2032	13:07:11	मीन	शनि	मीन	13:07:11	06/01/2032
18/12/2032	13:51:59	कुंभ व	राहु व	कुंभ	13:51:59	18/12/2032
20/07/2034	13:51:59	सिंह व	केतु व	सिंह	13:51:59	20/07/2034
28/08/2035	05:13:33	वृष	हर्ष	वृष	05:13:33	28/08/2035
04/07/2038	08:30:53	मीन	नेप	मीन	08:30:53	04/07/2038
15/01/2041	11:10:52	मक	प्लूटो	मक	11:10:52	15/01/2041

व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट


24:13:33 चित्रपक्षीय अयनांश 24:13:33



## अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	विप्र	विप्र	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	जलचर	जलचर	2	2.00	--	स्वभाव
तारा	जन्म	जन्म	3	3.00	--	भाग्य
योनि	गौ	गौ	4	4.00	--	यौन विचार
मैत्री	गुरु	गुरु	5	5.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	मनुष्य	मनुष्य	6	6.00	--	सामाजिकता
भकूट	मीन	मीन	7	7.00	--	जीवन शैली
नाड़ी	मध्य	मध्य	8	0.00	हाँ	स्वास्थ्य/संतान
<b>कुल :</b>			<b>36</b>	<b>28.00</b>		

कुल : 28 / 36



## अष्टकूट मिलान

नाड़ी दोष कष्टदायक है क्योंकि दोनों के एक ही नक्षत्र एवं एक ही चरण है।  
Mr. का वर्ग सर्प है तथा Ms. का वर्ग सर्प है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।  
अष्टकूट मिलान के अनुसार Mr. और Ms. का मिलान अत्युत्तम है।

### मंगलीक दोष मिलान

Mr. मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में षष्ठ भाव में स्थित है।  
Ms. मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में षष्ठ भाव में स्थित है।  
Mr. तथा Ms. में मंगलीक मिलान ठीक है।

### निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।

## अष्टकूट फलादेश

### वर्ण

Mr. का वर्ण ब्राह्मण तथा Ms. का वर्ण भी ब्राह्मण है अतः यह मिलान अति उत्तम है। जिसके कारण दोनों के गुण, स्वभाव, आदतें, पसन्द एवं नापसंद सभी एक-समान होंगी। दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल अनुरूप एवं अनुकूल साबित होंगे तथा दोनों हमेशा सामाजिक, व्यावसायिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

### वश्य

Mr. का वश्य जलचर है एवं Ms. का वश्य भी जलचर है अर्थात् दोनों का वश्य समान ही है। जिसके कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। दोनों की शारीरिक स्थिति, स्वभाव, पसंद एवं नापसंद एक ही तरह के होंगे। दोनों के बीच अगाध प्रेम एवं सौहार्द बना रहेगा तथा समान दृष्टिकोण, व्यवहार एवं आपसी समझ होने के कारण एक-दूसरे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों एक-दूजे के लिए ही बने हुए हैं तथा एक-दूसरे के साथ का आनंद लेते रहेंगे। दोनों एक-दूसरे के कामों में मदद करते रहेंगे तथा परिवार की प्रगति एवं समृद्धि में महती योगदान देंगे।

### तारा

Mr. की तारा जन्म तथा Ms. की तारा भी जन्म है। अतः समान तारा होने के कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके कारण दोनों में अगाध प्रेम, सहयोग आपसी विश्वास तथा समझदारी की भावना बनी रहेगी। साथ ही दोनों एक-दूसरे के विश्वास पात्र बने रहेंगे तथा पूर्ण सक्षमता से मिलकर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। इनकी संतान बुद्धिमान, कर्तव्यपरायण तथा सफल होगी।

### योनि

Mr. की योनि गौ है तथा Ms. की योनि भी गौ है। अर्थात् दोनों की योनि समान ही है। दोनों योनि के बीच परस्पर मित्रता का संबंध है। अतः यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके कारण दोनों के बीच अगाध प्रेम होगा। दोनों हमेशा एक दूसरे को समय-समय पर अपना सहयोग देते रहेंगे जिससे इनका पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन अत्यंत सौहार्द एवं प्रेमपूर्वक बीतेगा। सोच एवं समझदारी में समानता होने के कारण परस्पर वैचारिक मतभेद नहीं रहेंगे। इस प्रकार आपसी विश्वास रहने के कारण आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आप दोनों पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन में शांति का अनुभव करेंगे। मन में हर्षोल्लास की भावना बनी रहेगी। साथ ही परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। धन का आगमन समय-समय पर होता रहेगा। जिसके कारण आप सुखी पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। दोनों आपसी समझबूझ के साथ जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समधान शीघ्र ही निकाल पाने में सक्षम होंगे। जिसके कारण इनका पारिवारिक जीवन अत्याधिक समृद्धिशाली रहेगा। इस प्रकार इनका वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन सुखी होगा एवं प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे।

## मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में Mr. एवं Ms. दोनों के राशि स्वामी समान हैं। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से अति उत्तम मिलान है। ज्यातिष की दृष्टि से यदि Mr. एवं Ms. दोनों के राशि स्वामी एक ही होने के कारण कुंडली मिलान में इसे अति उत्तम माना जाता है तथा पूरे 5 अंक प्रदान किए जाते हैं। जिसके कारण दोनों में असीम प्रेम बना रहेगा तथा साथ ही दोनों जीवन के हर क्षेत्र में एक-दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। इनका प्रयास रहेगा कि वे स्वयं को आदर्श दम्पति साबित कर सकें। इनके बच्चे योग्य, आज्ञाकारी, सफल एवं यशस्वी होंगे।

## गण

Mr. का गण मनुष्य तथा Ms. का गण भी मनुष्य ही है। अर्थात् दोनों का गण समान है। अतः यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके कारण दोनों के स्वभाव एक जैसे होंगे। दोनों भौतिक सुखों के आकांक्षी, परिश्रमी, बुद्धिमान, व्यावहारिक तथा मिलनसार रहेंगे। तथा साथ मिलकर अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

## भकूट

Mr. एवं Ms. दोनों की राशि एक समान ही है इसलिये यह अति उत्तम मिलान है। ऐसा मिलान Mr. एवं Ms. तथा परिवार के चतुर्दिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। इन्हें अनेक रूपों में ईश्वरीय कृपा जैसे - सौभाग्य, सम्पत्ति, समाज में मान-सम्मान तथा योग्य संतान आदि प्राप्त होगी।

## नाड़ी

Mr. की नाड़ी मध्य है तथा Ms. की नाड़ी भी मध्य है। अर्थात् दोनों की नाड़ी समान हैं, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोषपूर्ण है। अर्थात् यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। यदि पति-पत्नी की समान नाड़ी मध्य ही होगी तो पति अथवा पत्नी में से किसी की मृत्यु की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में Mr. एवं Ms. का विवाह अति घातक हो सकता है। आपकी संतान कमजोर, डरपोक, मानसिक रूप से असंतुलित, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो सकती हैं। अतः ऐसा विवाह पूर्णतः त्याज्य है।

## मेलापक फलित

### स्वभाव

Mr. एवं Ms. की राशि जलतत्व युक्त मीन राशि है। अतः इसके प्रभाव से इनके मध्य स्वभावगत समानताएं विद्यमान रहेंगी जिससे दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी तथा वैवाहिक जीवन भी सुख एवं शांति से व्यतीत होगा। अतः यह मिलान उत्तम रहेगा।

Mr. एवं Ms. की राशि का स्वामी बृहस्पति है। अतः इसके शुभ प्रभाव से Mr. एवं Ms. के मध्य प्रगाढ़ मित्रता का भाव रहेगा तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम आकर्षण तथा समर्पण की भावना होगी। साथ ही सुख दुख में एक दूसरे को पूर्ण सुख एवं सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर होंगे। Mr. और Ms. एक दूसरे के सदगुणों की मुक्त भाव से प्रशंसा करेंगे तथा कमियों की उपेक्षा करेंगे जिससे शांति एवं सदभावना बनी रहेगी तथा एक दूसरे के प्रति त्याग एवं विश्वास का भाव बना रहेगा।

Mr. और Ms. की राशियां परस्पर प्रथम भाव में पड़ती हैं शास्त्रानुसार यह शुभ भकूट माना जाता है तथा सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह ग्रह स्थिति उत्तम रहती है। इसके शुभ प्रभाव से Mr. और Ms. एक दूसरे के लिए परम सौभाग्यशाली सिद्ध होंगे तथा भौतिक सुख संसाधनों को अर्जित करके सुख पूर्वक इनका उपभोग करेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी। इस प्रकार Mr. और Ms. एक दूसरे के पूरक रहेंगे तथा प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

Mr. और Ms. का वश्य जलचर है। अतः इनकी अभिरुचियों में पूर्ण समानता होगी तथा शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर आवश्यकताएं भी समान होंगी। फलतः कामसंबंधों में भी एक दूसरे को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने में समर्थ रहेंगे जिससे दोनों सुख एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे।

Mr. एवं Ms. का वर्ण ब्राह्मण है। अतः इसके प्रभाव से दोनों की प्रवृत्ति शैक्षणिक धार्मिक तथा अन्य सत्कार्यों में रहेगी तथा स्व बुद्धिमता एवं योग्यता से कार्य क्षेत्र में सुदृढ़ता बनाए रखने में समर्थ होंगे।

### धन

Mr. और Ms. का जन्म एक ही तारा 'जनम' में हुआ है। अतः इसके शुभ प्रभाव से इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी तथा प्रचुर मात्रा में धन एवं लाभ अर्जित करने में समर्थ होंगे। साथ ही भकूट एवं मंगल का प्रभाव भी आर्थिक स्थिति पर सामान्य ही रहेगा। अतः अपने वर्तमान स्रोतों से परिश्रम पूर्वक धनऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी जिससे लाभ मार्ग सामान्यतया प्रशस्त होंगे तथा आर्थिक स्थिति से Mr. और Ms. सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे।

Mr. को पैतृक सम्पत्ति तथा जायदाद की प्राप्ति होगी। अतः आजीवन वे धन धान्य से युक्त रहेंगे तथा अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं परिश्रम से उसमें उतरोत्तर वृद्धि करने में समर्थ

होंगे । इस प्रकार भौतिक सुख संसाधनों का उपभोग करते हुए वे अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे ।

### स्वास्थ्य

Mr. और Ms. दोनों की नाड़ी मध्य है। अतः इन दोनों पर नाड़ी दोष का प्रभाव रहेगा। इसके प्रभाव से दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इससे Mr. और Ms. दोनों उदर संबंधी कष्ट प्राप्त करेंगे जिससे लीवर विशेष प्रभावित रहेगा। परन्तु मंगल का इनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अतः इससे कष्ट की गंभीरता में न्यूनता आएगी परन्तु सामान्य कष्ट वे समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस दोष के प्रभाव से Mr. को धातु संबंधी तथा Ms. को मासिक धर्म संबंधी परेशानी हो सकती है। अतः उत्तम वैवाहिक दृष्टि से यह मिलान अनुकूल नहीं होगा जिससे यत्नपूर्वक इसकी उपेक्षा करनी चाहिए।

### संतान

संतति प्राप्ति की दृष्टि से Mr. और Ms. का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उन्हें उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में भी सामान्य अंतर रहेगा जिससे उनका पालन पोषण उचित ढंग से करने में आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त Mr. और Ms. के पुत्र एवं कन्या संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव के विषय में Ms. के मन में पहले से ही अनावश्यक भय की अनुभूति रहेगी लेकिन Ms. को इस विषय में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा सामान्य रूप से गर्भावस्था का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रसव काल में Ms. को प्रसूति या अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी। साथ ही स्वयं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

संतति पक्ष से Mr. और Ms. सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा बच्चे अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमता तथा योग्यता से उन्नतिमार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही व्यवहार कुशलता का गुण भी उनमें विद्यमान रहेगा। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण आदर तथा आज्ञापालन का भाव रहेगा तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार Mr. और Ms. का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

### ससुराल-सुश्री

Ms. के अपनी सास से सामान्यतया अच्छे संबंध रहेंगे परन्तु यदा कदा उनके मध्य अनावश्यक मतभेद तथा तनाव भी उत्पन्न होंगे परन्तु परस्पर सामंजस्य के द्वारा उनका समाधान हो जाएगा तथा इससे विशेष कठिनाई नहीं होगी। साथ ही Ms. सास से अपनी माता के समान व्यवहार करेंगी तथा इसी प्रकार उनकी सेवा तथा सुख सुविधा का ध्यान रखेंगी।

लेकिन ससुर को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने में Ms. को काफी परेशानी तथा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यदि Ms. धैर्य, गंभीरता तथा सामंजस्य का उनके प्रति प्रदर्शन करेंगी

तो उनसे किंचित मात्रा में सहानुभूति प्राप्त हो सकती है। देवर एवं ननदों से Ms. के संबंधों में मधुरता का अभाव रहेगा तथा परस्पर ईर्ष्या तथा प्रतिद्वन्दिता का भाव रहेगा। इस प्रकार सामंजस्य एवं बुद्धिमता से ही Ms. ससुराल में अनुकूल वातावरण प्राप्त कर सकती है।

### ससुराल-श्री

Mr. के सास के साथ सामान्यतया अच्छे ही संबंध रहेंगे तथा उनके प्रति इनके मन में सम्मान तथा आदर का भाव सर्वदा विद्यमान रहेगा। सास को वह माता के समान समझेंगे तथा वह भी उन्हें पुत्रवत स्नेह तथा सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही Mr. भी समय समय पर ससुराल में आते जाते रहेंगे तथा आपस में श्रेष्ठता के भाव की हमेशा न्यूनता रहेगी।

लेकिन ससुर के साथ में सामान्यतया संबंधों में तनाव रहेगा तथा आयु में पर्याप्त अंतर के कारण वैचारिक मतभेद भी रहेंगे परन्तु यदि दोनों सामंजस्य की प्रवृत्ति का अनुपालन करें तो संबंधों में मधुरता का भाव आ सकता है। साथ ही साले एवं सालियों से भी Mr. के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तथा परस्पर स्नेह एवं सहयोग के भाव की न्यूनता रहेगी एवं प्रतिद्वन्दिता का भाव भी विद्यमान रहेगा। इस प्रकार ससुराल पक्ष का दृष्टिकोण Mr. के प्रति विशेष उल्लेखनीय नहीं रहेगा।